## तीन दिवसीय कृषक उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम सारणी

प्रशिक्षण उद्देश्यः 1. महिला कृषको को उद्यमिता विकास मॉडल से परिचित करवाना तथा उन्हें प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास की मुख्य धारा से जोड़ना।

2. खेती के नए क्षेत्रों से परिचित करवाना तथा शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त कर पूर्ण आत्मनिर्भर बनने हेतु संस्थागत व्यवस्था का सृजन करना।

प्रशिक्षण अवधि : तीन दिन प्रातः 10 बजे से साय 5 बजे तक

| क्रम                   | दिवस एवं     | समय            | विषय                              | सन्दर्भ व्यक्ति |  |  |
|------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|
| संख्या                 | दिनांक       |                |                                   |                 |  |  |
| 1                      | प्रथम दिवस   | 10:00 社 10:30  | स्वागत, पंजीकरण एवं परिचय         |                 |  |  |
|                        |              | 10:30 से 10:35 | प्रार्थना                         | समन्वयक         |  |  |
|                        | (प्रथम सत्र) | 10:35 से 11:00 | कार्यक्रम उद्घाटन एवं मुख्य अतिथि |                 |  |  |
|                        |              |                | उद्बोधन                           |                 |  |  |
|                        |              | 11:00          | चाय अवकाश                         |                 |  |  |
|                        |              | 11:15 社 12:00  | ग्रामीण अंचल में महिला कृषक       |                 |  |  |
|                        |              |                | उद्यमिता विकास मॉडल               |                 |  |  |
| 2                      | द्वितीय सत्र | 12:00 से 01:30 | उद्यमिताः अर्थ, महिला उद्यमिता,   | विषय विशेषज्ञ   |  |  |
|                        |              |                | महत्व, उद्यमी के गुण तथा कृषक     |                 |  |  |
|                        |              |                | उद्यमिता विकास हेतु विभिन्न       |                 |  |  |
|                        |              |                | शासकीय योजनाओं के बारे में        |                 |  |  |
|                        |              |                | जागरूकता।                         |                 |  |  |
|                        |              | 01:30 社 02:15  | भोजनावकाश                         |                 |  |  |
| 3                      | तृतीय सत्र   | 02:15 से 05:00 | मोरेंगा या सहजन: औषधीय महत्व,     | विषय विशेषज्ञ   |  |  |
|                        |              |                | उपयोग, लाभ                        |                 |  |  |
| धन्यवाद एवं सत्र समापन |              |                |                                   |                 |  |  |
| 4                      | द्वितीय      | 10:00 से 10:30 | प्रार्थना एवं प्रथम दिवस का       | समन्वयक         |  |  |
|                        | दिवस         |                | पुनरवलोकन                         |                 |  |  |
|                        | चतुर्थ सत्र  |                |                                   |                 |  |  |
| 5                      | पंचम सत्र    | 10:30 से 01:30 | गोबर: महत्व, उत्पाद, बिज़नेस      | विषय विशेषज्ञ   |  |  |
|                        |              | (चाय अवकाश     | आईडिया (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल)    |                 |  |  |
|                        |              | सहित)          |                                   |                 |  |  |
|                        |              | 01:30 社 02:15  | भोजनावकाश                         |                 |  |  |
| 6                      | षष्टम सत्र   | 02:15 से 05:00 | मोरेंगा या सहजन नर्सरी तथा उसके   | विषय विशेषज्ञ   |  |  |

|                        | T           |                |                                    | 1             |  |  |
|------------------------|-------------|----------------|------------------------------------|---------------|--|--|
|                        |             |                | कृषिकरण एवं अन्य मौसमी             |               |  |  |
|                        |             |                | सब्जियों/फलों की पौधशाला तथा       |               |  |  |
|                        |             |                | उसके कृषिकरण: अर्थ, महत्व,         |               |  |  |
|                        |             |                | बिज़नस आईडिया, लाभ ( थ्योरी एवं    |               |  |  |
|                        |             |                | प्रैक्टिकल)                        |               |  |  |
| धन्यवाद एवं सत्र समापन |             |                |                                    |               |  |  |
| 7                      | तृतीय दिवस  | 10:00 से 10:30 | प्रार्थना एवं प्रथम दिवस का        | समन्वयक       |  |  |
|                        |             |                | पुनरवलोकन                          |               |  |  |
|                        | सातवाँ सत्र |                | 9                                  |               |  |  |
| 8                      | आठवा सत्र   | 10:30 से 01:30 | बांस की खेती: अर्थ, संकल्पना,      | विषय विशेषज्ञ |  |  |
|                        |             | (चाय अवकाश     | बिज़नस आईडिया, लाभ ( थ्योरी एवं    |               |  |  |
|                        |             | सहित)          | प्रैक्टिकल)                        |               |  |  |
|                        |             | 01:30 社 02:15  | भोजनावकाश                          |               |  |  |
| 9                      | नवां सत्र   | 02:15 से 05:00 | मशरुम की खेती: अर्थ, संकल्पना,     |               |  |  |
|                        |             |                | बिज़नस आईडिया, लाभ ( थ्योरी एवं    |               |  |  |
|                        |             |                | प्रैक्टिकल)                        |               |  |  |
| 10                     | दसवा सत्र   | 05:00 से 05:30 | प्रतिभागियों का धन्यवाद, प्रशिक्षण | मुख्य अतिथि   |  |  |
|                        |             |                | समापन, सर्टिफिकेट वितरण            |               |  |  |